

संदर्भ पैमाने में बोधगम्यता: हिन्दी

Intelligibility in Context Scale (ICS): Hindi

(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012)

Translated by: Varun Sud, NAATI accredited translator for Australian Multi Lingual Services, Australia, 2013

बच्चे/बच्ची का नाम (Child's name): _____

बच्चे/बच्ची की जन्म-तिथि (Child's date of birth): _____ पुरुष/महिला (Male/Female): _____

बोली जाने वाली भाषाएं (Language(s) spoken): _____

आज की तिथि (Current date): _____ बच्चे/बच्ची की आयु (Child's age): _____

इस फॉर्म को पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम (Person completing this form): _____

बच्चे/बच्ची के साथ संबंध (Relationship to child): _____

निम्नलिखित प्रश्न इस बारे में हैं कि भिन्न-भिन्न लोग आपके बच्चे/आपकी बच्ची की वाक शक्ति (स्पीच) को कितना समझते हैं। कृपया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय अपने बच्चे/अपनी बच्ची की वाक शक्ति (स्पीच) के बारे में सोचें। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक नम्बर पर गोला लगाएं।

(The following questions are about how much of your child's speech is understood by different people. Please think about your child's speech over the past month when answering each question. Circle one number for each question.)

	हमेशा (Always)	आम-तौर पर (Usually)	कभी-कभार (Sometimes)	शायद ही कभी (Rarely)	कभी नहीं (Never)
1. क्या आप अपने बच्चे/अपनी बच्ची ¹ को समझते/समझती हैं? (Do you understand your child ¹ ?)	5	4	3	2	1
2. क्या परिवार के निकटतम सदस्य आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do immediate members of your family understand your child?)	5	4	3	2	1
3. क्या परिवार के दूर के सदस्य आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do extended members of your family understand your child?)	5	4	3	2	1
4. क्या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के मित्र आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do your child's friends understand your child?)	5	4	3	2	1
5. क्या दूसरे परिचित व्यक्ति आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do other acquaintances understand your child?)	5	4	3	2	1
6. क्या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के अध्यापक आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do your child's teachers understand your child?)	5	4	3	2	1
7. क्या अजनबी लोग ² आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समझते हैं? (Do strangers ² understand your child?)	5	4	3	2	1
कुल स्कोर (TOTAL SCORE) =	/35				
औसतन कुल स्कोर (AVERAGE TOTAL SCORE) =	/5				

¹ बच्चे/बच्ची शब्द की बजाए पति/पत्नी शब्द का प्रयोग करके इस आकलन का प्रयोग वयस्कों की वाक शक्ति (स्पीच) के लिए किया जा सकता है।

(This measure may be able to be adapted for adults' speech, by substituting *child* with *spouse*.)

² अजनबी शब्द के बदले अपरिचित लोग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है।

(The term *strangers* may be changed to *unfamiliar people*)

संदर्भ पैमाने में बोधगम्यता के इस संस्करण की प्रतिलिपि तैयार जा सकती है।

(This version of the *Intelligibility in Context Scale* can be copied.)

Intelligibility in Context Scale is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: Validity and reliability of a subjective rating measure.

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55(2), 648-656. <http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648>

